



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन 1940 (श10)  
(सं0 पटना 366) पटना, मंगलवार, 12 मार्च 2019

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना  
5 मार्च 2019

सं० प्र02वि0 1- 64/2012 (पार्ट-2)-1119—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 10 में विनिर्दिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 समय-समय पर यथा संशोधन के नियम (3) एवं (4) में वर्णित प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला के जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान की तिथि से 5 (पाँच) वर्षों अथवा 65 वर्षों की उम्र सीमा (जो भी पहले हो) पूर्णकालिक सदस्य/सदस्या के पद पर नियुक्त किया जाता है। इन्हें 30,000/- रुपया (तीस हजार) समेकित रूप से मासिक मानदेय प्रतिमाह भुगतये होगा :-

क्र० सं०	नाम एवं पता	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	सदस्य
1	2	3	4
01	1. श्री पंकज कुमार, पिता— स्व० बिरेन्द्र प्रसाद सिंह, मोहल्ला—गढ़पर, कुमार सिनेमा के पीछे, बिहारशरीफ, जिला— नालन्दा, पिन— 803101	समस्तीपुर	पुरुष
02	श्री अजीत कुमार सिन्हा, पिता— श्री यमुना लाल, मोहल्ला— कमिशनरी बाजार, थाना+पो0+जिला—शेखपुरा, पिन—811105	शेखपुरा	पुरुष
03	श्रीमती अनसुया, द्वारा—श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, पता— “लगमा निवास” पत्राचार का पता—द्वारा—अभय कुमार, फेज—1 तृतीय तल्ला, त्रिविक्रम अपार्टमेंट, कलामबाग चौक, मुजफ्फरपुर, पिन— 842002	सीतामढ़ी	महिला

क्र० सं०	नाम एवं पता	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	सदस्य
1	2	3	4
04	श्रीमती सुधा कुमारी वर्मा पुराना चौक, पता— द्वारा— वीरेन्द्र कुमार, 'अधिवक्ता' मकान संख्या-45, रोड नं०-10, इन्द्रपुरी, पो०— केसरी नगर, पटना-24	कैमूर (भभुआ)	महिला

2. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर योगदान नहीं करने पर अधिसूचना विलोपित समझी जाएगी एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. संबंधित सदस्य अपना योगदान संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम को जन्म तिथि प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति के साथ समर्पित करेंगे। जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र के अभाव में योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा। योगदान की एक प्रति निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी समर्पित किया जायेगा।

4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्त सदस्यों से उपभोक्ता संरक्षण नियमावली के नियम 3 के उपनियम (4) में उल्लिखित प्रावधान के अनुरूप शपथ पत्र/प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही योगदान स्वीकार किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से  
पंकज कुमार,  
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 366-571+10 डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>